

August 7, 2023

AIL/SE/FR/Q1/2023-24

То

BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-l, G
Dalal Street, Mumbai 400 001	Block, Bandra Kurla Complex, Bandra
	(East), Mumbai - 400 051
Scrip Code: 542752	Symbol: AFFLE

## <u>Sub: Intimation of Publication of unaudited Consolidated Financial Results for the first quarter ended June 30, 2023</u>

Dear Sir/Madam.

This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published unaudited Consolidated Financial Results for the first quarter ended June 30, 2023. Please find enclosed a copy of the advertisements published in the following newspapers on Monday, August 7, 2023.

- Financial Express (English Language National Daily Newspaper All Editions) and
- Jansatta (Hindi Language Daily Newspaper Delhi Edition).

Submitted for your information and records.

Thanking you,

For Affle (India) Limited

Parmita Choudhury

Company Secretary & Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS

# affle **AFFLE (INDIA) LIMITED**

Registered Office: A47 Lower Ground Floor, Hauz Khas, Off Amar Bhawan, New Delhi -110016 (P) 0124-4598749, (W) www.affle.com, Email: compliance@affle.com CIN: L65990DL1994PLC408172

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL **RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023** 

(Amount in Rs Mn, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter ended June 30, 2022 (Unaudited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)
Total income for the periods / year	4,164.14	3,733.41	3,549.69	14,882.80
Profit before tax for the periods / year	700.69	698.57	639.62	2,815.51
Profit for the periods / year	661.72	623.88	549.88	2,454.66
Total comprehensive income for the periods / year	627.20	616.40	773.05	2,893.16
Paid-up equity share capital (face value INR 2/- per equity share)	266.35	266.35	266.35	266.35
Other equity for the year		50	950	14,384.16
Earnings per equity share (face value INR 2/- per equity share)				
Basic:	4.97	4.68	4.13	18.43
Diluted:	4.97	4.68	4.13	18.43

. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 05, 2023 and subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.

2. Key standalone financial information:

Particulars	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter ended June 30, 2022 (Unaudited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)
Total income for the periods / year	1,425.16	1,435.64	1,087.58	5,173.66
Profit for the periods / year	155.82	203.06	102.85	668.78
Total comprehensive income for the periods / year	155.77	203.20	102.38	668.13

3. The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

The full format of the quarterly financial results are available to the investors on the websites of stock exchange, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company i.e. www.affle.com.

> By Order of the Board For Affle (India) Limited

Date : August 5, 2023

Anuj Khanna Sohum Managing Director & Chief Executive Officer



## JK PAPER LIMITED CIN: L21010GJ1960PLC018099, Website: www.jkpaper.com

Regd. Office: P.O. Central Pulp Mills - 394 660, Fort Songadh, Distt. Tapi, Gujarat Admin. Office: Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 Phone: 011-66001132, 23311112-5, E-mail ID: sharesjkpaper@jkmail.com

- NOTICE is hereby given that the 62<sup>nd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Friday, 1st September 2023 at 12.30 P.M. at the Registered Office of the Company at P.O. Central Pulp Mills - 394660, Fort Songadh, Distt. Tapi, Gujarat to transact the business set out in the AGM Notice dated 25th July 2023.
- The Company has completed despatch of the Annual Report for the financial year 2022-23 and also the Notice of AGM by email to those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s) and physically to all other Members at their addresses registered with the Company as on 21st July 2023. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.jkpaper.com and also at the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and can be downloaded therefrom. Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.
- In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with relevant Rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Company is pleased to provide its Members, facility to exercise their right to vote at the 62<sup>nd</sup> AGM by electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting') and the business may be transacted through remote e-voting services provided by CDSL. Remote e-voting is optional Detailed procedure for remote e-voting is also provided in the Notice of the AGM. The facility of voting by ballot/polling paper shall also be made available at the AGM venue. However, Members who have already cast their vote by remote e-voting may participate in the AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM.
- The cut-off date for determining the eligibility of the Members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is Friday, 25th August 2023. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date and who has not cast vote by remote-voting and being present at the AGM only shall be entitled to vote at the AGM.
- The remote e-voting period begins on Tuesday, 29th August 2023 from 10:00 A.M. and ends on Thursday, 31st August 2023 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after despatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 25th August 2023 may follow the same instructions for remote e-voting as mentioned in the Notice of AGM.
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33. Please write to the Secretarial Department of the Company at Gulab Bhawan (Rear Block), 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110 002 for any assistance.
- Book Closure: Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Saturday, 19th August 2023 to Friday, 1st September 2023 (both days inclusive) for the purposes of AGM and determining the entitlement of the Members to the dividend for the financial year ended 31st March 2023, if declared at the AGM. The said dividend after declaration thereof by the Members, will be credited/despatched within four weeks of the conclusion of AGM after deduction of tax as per the provisions of Income-tax Act, 1961, to those Members whose names are borne on the Register of Members of the Company on 18th August 2023 or to their mandatees. In respect of shares held by the Members in dematerialised form, dividend will be credited/despatched on the basis of details of beneficial ownership to be received from the depositories for this purpose.

30/06/2023

को समाप्त



Place: New Delhi Date: 05.08.2023

31/03/2023

को समाप्त हए

30/06/2022

को समाप्त हुई

For JK Paper Limited Sd/-Deepak Gupta Company Secretary

# न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

## **NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED**

(भारत सरकार का उद्यम A Government of India Enterprise) सीआईएन CIN - U40104MH1987GOI149458

पंजीकृत कार्यालय Registered Office : 16th तल Floor, सेंटर-l Centre-l, विश्व व्यापार केंद्र World Trade Centre, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई Cuffe Parade, Colaba, Mumbai- 400 005. दूरभाष संख्या Tel. No. 022-22182171 / 77, फैक्स संख्या Fax No. 022-22180109, वेबसाइट Website - www.npcil.nic.in , ई-मेल E-mail - nmalathy@npcil.co.in

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु एकल गैर लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2023

30/06/2023

को समाप्त तिमाही

( करोड़ में ₹ in Crore)

31/03/2023

को समाप्त पिछले

31/03/2022

को समाप्त

विवरण	Particulars	3 Months ended 30/06/2023	पिछली तिमाही Preceeding 3 months ended 31/03/2023	इसी तिमाही के पिछली वर्ष के आंकड़े Corresponding 3 months ended previous year 30/06/2022	वर्तमान अवधि के लिए इस तारीख तक वर्ष के आंकड़े Year to Date figures for current period ended 30/06/2023	पिछली अवधि के लिए इस तारीख तक वर्ष के आंकड़े Year to Date figures for previous period ended 30/06/2022	वर्ष के लिए इस तारीख तक वर्ष के आंकड़े Year to Date figures for Previous Year ended 31/03/2023
		गैर लेखापरीक्षित Un-audited	लेखापरीक्षित Audited	गैर लेखापरीक्षित Un-audited	गैर लेखापरीक्षित Un-audited	गैर लेखापरीक्षित Un-audited	लेखापरीक्षित Audited
1. प्रचालनों से कुल आय	1. Total Income from Operations	5,670.60	3,872.09	3,417.57	5,670.60	3,417.57	14,618.50
<ol> <li>इस अविधि हेतु लाभ (कर, अपवाद स्वरूप और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)</li> </ol>	<ol><li>Profit for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)</li></ol>	3,977.98	1,720.89	1,338.35	3,977.98	1,338.35	6,138.22
3. इस अवधि हेतु कर-पूर्व लाभ (अपवाद स्वरूप एवं असामान्य मदों के पश्चात)	Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	3,977.98	1,720.89	1,338.35	3,977.98	1,338.35	6,138.22
4. इस अवधि हेतु कर पश्चात लाभ (अपवाद स्वरूप एवं असामान्य मदों के पश्चात)	Profit for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	2,948.76	1,617.94	1,097.18	2,948.76	1,097.18	5,146.01
5. इस अवधि के लिए कुल समग्र आमदनी [इसमें इस अवधि का निवल लाभ (कर पश्चात) व अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल हैं।]	5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Net Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,927.89	1,710.27	1,086.87	2,927.89	1,086.87	5,202.14
6. प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य र 1000/- प्रति शेयर)	6. Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 1,000/- per share)	15,685.66	13,733.66	13,508.66	15,685.66	13,508.66	13,733.66
7. पुनः मूल्यांकित प्रारक्षित, पूँजी प्रारक्षित एवं आबंटन हेतु लंबित इक्विटी से प्राप्त राशि को छोड़कर प्रारक्षित	<ol> <li>Reserves excluding Revaluation Reserve, Capital Reserve and amount received for equity pending allotment</li> </ol>	41,436.62	38,508.73	36,451.46	41,436.62	36,451.46	38,508.73
8. निवल मूल्य	8. Net Worth	57,122.28	52,242.39	49,960.12	57,122.28	49,960.12	52,242.39
9. प्रदत्त ऋण पूँजी (बॉण्ड)	9. Paid up Debt Capital (Bonds)	27,010.10	27,010.10	23,660.10	27,010.10	23,660.10	27,010.10
10. बकाया मोचनीय अधिमानी शेयर	10. Outstanding Redeemable Preference Shares		-	-	( - <u>f</u>	-	- 1
11. ऋण इक्विटी अनुपात	11. Debt Equity Ratio	1.36	1.47	1.33	1.36	1.33	1.47
12. दर नियामक गतिविधियों के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य र 1000/- प्रति शेयर) (र में)	12. Earnings Per Share after Rate Regulatory Activities (Face Value 1,000/- each) (in 1)						
ए) मूल	a) Basic	(*) 193.55	(*) 117.81	(*) 81.22	(*) 193.55	(*) 81.22	376.59
बी)घटाई हुई	b) Diluted	(*) 190.17	(*) 114.88	(*) 79.89	(*) 190.17	(*) 79.89	356.09
13. पूंजीगत मोचन प्रारक्षित	13. Capital Redemption Reserve	-	-	-	- 1	-	
14. डिबेंचर (बॉण्ड) मोचन प्रारिक्षत	14. Debenture (Bond) Redemption Reserve	2,701.01	2,701.01	2,366.01	2,701.01	2,366.01	2,701.01
15. ऋण चुकौती व्यापन अनुपात	15. Debt Service Coverage Ratio	2.72	0.71	1.00	2.72	1.00	0.96
16. ब्याज चुकौती व्यापन अनुपात	16. Interest Service Coverage Ratio	2.75	1.47	1.35	2.75	1.35	1.36
(*) वार्षिकीकृत नहीं किया गया है Not Annualised	1						
टिप्पणियाँ Notes :							

- 1) उपर्युक्त आंकड़े भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार हैं। निगम के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, हमारी वेबसाइट www.npcil.nic.in के 'हमारे बारे में कंपनी का संक्षिप्त परिचय' के अंतर्गत और नेशनल स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 2) भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 52 (4) के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण नेशनल स्टाक एक्सचेंज को किए जा चुके है और यह हमारी वेबसाइट के 'हमारे बारे में - कंपनी का संक्षिप्त परिचय' के अंतर्गत उपलब्ध है।
- 1) The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results of the Corporation are available under 'About us - Company Profile' section of the Corporation website www.npcil.nic.in and also in the website of NSE.
- 2) For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, pertinent disclosures have been made to the NSE and also made available on the Corporation website under 'About us - Company Profile' section.

कृते एवं वास्ते, निदेशक मण्डल For and on behalf of the Board of Directors

न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

हस्ताक्षरित Sd/-मुथुकृष्णन एस Muthukrishnan S निदेशक (वित्त) एवं मु. वि. अ. Director (Finance) & CFO डीआईएन DIN : 07611408

भुवन चंद्र पाठक Bhuwan Chandra Pathak अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director डीआईएन DIN : 07770198

हस्ताक्षरित Sd/-

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR ED & TECH INTERNATIONAL LIMITED OPERATING IN BUSINESS OF A) SOFTWARE DEVELOPMENT WITH SPECIAL EMPHASI ON E-COMMERCE SOLUTIONS B) ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) SOLUTION C) MIGRATION MAINTENANCE AND RE-ENGINEERING SOLUTIONS DEDUCATION AND TRAINING. (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

	RELEVANT PA	RTICULARS
1.	Name of the corporate debtor	ED & TECH INTERNATIONAL LIMITED
2.	Address of the registered office	FLAT NO.104LUMBINI ENCLAVE, PUNJA GUTTA HYDERABAD AP 500072 IN
3.	URL of website	Nil
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Hyderabad
5.	Installed capacity of main products/ Services	A) Software Development with Special Emphasis     On E-Commerce Solutions     B) Enterprise Resource Planning (Erp) Solutions     C) Migration Maintenance And Re-Engineering     Solutions     D) Education And Training
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Nil
7.	Number of employees/ workmen	0
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	Contact Mummaneni Vazra Laxmi, Resolution Professional at emailtolak@gmail.com and at edtechcirp@gmail.com
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Contact Mummaneni Vazra Laxmi, Resolution Professional at emailtolak@gmail.com and at edtechcirp@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	20-08-2023
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	30-08-2023
12.	Last date for submission of objections to provisional list	08-09-2023
13.	Process email id to submit EOI	edtechcirp@gmail.com
	lace: Hyderabad ate:05-08-2023	Mummaneni Vazra Laxmi Resolution Professional of M/sED & TECH INTERNATIONAL LIMITED IBBI/IPA-001/IP-P00919/2017-2018/11526 Flat No.107, V.V.Vintage Residency, Somajiguda, Hyderabad-500082



#### CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LIMITED CIN: L67120MH1997PLC112443

Registered Office: Unit No. A-2501, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013, Maharashtra, India. Tel: +91-22-2302 3333 Fax: +91-22-2300 2036 Email ID: cdslagm@cdslindia.com Website: www.cdslindia.com

### NOTICE TO THE MEMBERS OF TWENTY-FIFTH (25TH) ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS "OAVM"), RECORD DATE AND E-VOTING INFORMATION

- NOTICE is hereby given that the Twenty Fifth (25") Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Central Depository Services (India) Limited ("the Company/CDSL") will be held on Friday, September 01, 2023 at 11:00 A.M. Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without physical presence of the Members of the Company, to transact the business, as set out in the Notice of the AGM, which will be circulated for convening the AGM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), as amended from time to time, and General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 05, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No. 10/2021 dated June 23, 2021, No. 20/2021 dated December 08, 2021, No. 03/2022 dated May 05, 2022 and No. 10/2022 dated December 28, 2022 respectively and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12; 2020(collectively referred to as 'Applicable Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ["SEBI Listing Regulations"]. Members can attend the meeting and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the detailed procedures for e-voting will be provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- 2. In compliance with the above circulars, Notice of the AGM and the Annual Report for Financial Year 2022-23, will be sent in due course only through electronic mode to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s)/ Registrar and Transfer Agent. Members holding shares in dematerialized mode, are requested to register/update their email addresses and mobile numbers with the Company through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.
- The Notice convening the 25" AGM and the Annual Report for Financial Year 2022-23 will also be made available on the website of the Company at www.cdslindia.com and on the website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and on the website of Kfin Technologies Limited ("Kfin") at https://evoting.kfintech.com/ public/Downloads.aspx.
- Manner of Casting vote through e-voting: In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company will be providing to its Members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.
- Manner for registering/updating email address: In order to receive the Notice and Annual Report, the Members are requested to register/ update their email
- a) For Members holding shares in Physical mode may register their email address by providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to the Registrar and Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited. at Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in.
- b) For Members holding shares in Demat mode may register/ update their email address by contacting their respective Depository Participants (DPs).

## 6. Record date for Dividend and payment thereof:

- a) The Company has fixed Friday, August 25, 2023, as the "Record Date" for the purpose of determining the eligibility of the members to receive Dividend for the Financial Year 2022-23. Dividend, if declared at the meeting, will be paid within a period of 30 days from the conclusion of the AGM. b) In case of Members holding shares in electronic form, Bank account details
- provided by the Depository Participants (DPs) will be used by the Company for payment of dividend and printing dividend warrants and are also requested to update their Electronic Bank Mandate with their respective Depository Participant(s). c) Members holding shares in physical form who have not updated their
- mandate shall receive the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means and are requested to follow the following procedure and provide the relevant documents to M/s. Link Intime India Private Limited, at their Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in latest by Friday, August 25, 2023:
- For registration of e-mail address and / or updation of Bank Account details, please send a written request in Form ISR-1 (available at https://www.cdslindia.com/downloads/InvestorRels/ShareholderCorner/ Form%20ISR-1.pdf) to the Registrar and Transfer Agent of the Company i.e. M/s. Link Intime India Private Limited, at their Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in, along with details of Folio Number, name of the member, copy of the share certificate (front and back). PAN (self-attested copy of PAN card), Aadhaar (self-attested copy of Aadhaar card). Additionally, member must also provide a self-attested copy of the cancelled cheque leaf bearing the name of the first holder / bank statement duly attested by the bank manager (along with the details of 9-digit MICR Code Number and 11-digit IFSC), for updating bank account details.
- d) Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. For more details, please refer to the Notes to the Notice
- For any clarifications or assistance, the Members may contact RTA, Link Intime. India Private Limited, at Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in or write to the Company at cdslagm@cdslindia.com.

By Order of the Board of Directors For Central Depository Services (India) Limited

Nilay Shah

New Delhi

Date : August 07, 2023

Place: Mumbai

Group Company Secretary & Head Legal Membership No.: A20586



स्थान Place : मुंबई Mumbai

दिनांक Date: 04/08/2023

## एम एस टी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) सी आई एन : L27320WB1964GOI026211, जी एस टी आई एन : 19AACCM0021E1Z4 प्लॉट नं -सीएफ 18/2, स्ट्रीट नं -175, एक्शन एरिया-1 सी, न्यू टाउन, कोलकाता-700156, प.बं. वेवसाइटः www.mstcindia.co.in; ईमेलः cssectt@mstcindia.co.in; दुरभाषः 033-2340-0000



वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 58वीं वार्षिक साधारण बैठक बुलाए जाने की सूचना सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि एजीएम बुलाए जाने की सूचना में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों तथा सेबी (सचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2005 के साथ पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण परिपन्न सं. 14/2020 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022 एवं 10/2022 तथा भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 के अनुसार एमएसटीसी लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की **58वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम)** वीडियों कांफ्रेंसिंग (वीसी), अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के जरिए बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को पूर्वाहन 11.00 बजे ( भामास) आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सुचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल मोड के माध्यम से भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को तुरंत अपडेट करें ताकि कंपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति और एजीएम की सूचना शेयरधारकों को भेज सके। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम स्विधा के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल होने की निर्देशावलियां एजीएम की सुचना में उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

## ईमेल पतों को पंजीकृत/अद्यतन कराने का तरीकाः

- भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे आवश्यक संलग्नकों के साथ ई-मेल आईडी का उल्लेख करते हुए विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 को ईमेल के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड को cssectt@mstcindia.in पर या आरटीए, अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को virenders@alankit.com पर भेजें। फॉर्म आईएसआर-1 का प्रारूप https://www.mstcindia.co.in/cms/Investor/Investor-Service-RelatedForm. pdf लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।
- **डीमैट/इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों** से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें।
- एनईसीएस के माध्यम से सीधे बैंक खातों में लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण पंजीकरण/अद्यतन कराने का तरीकाः भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे आवश्यक संलग्नकों के साथ बैंक विवरण का उल्लेख करते हुए विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 भेजें और विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-2 ईमेल के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड को cssectt@mstcindia.in पर या आरटीए, अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को virenders@alankit.com पर भेजे। फॉर्म आईएसआर-1 और फॉर्म आईएसआर-2 का प्रारूप https://www.mstcindia.co.in/cms/Investor/Investor-Service-Related-Form.pdf लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।
- **डीमैट/इलेक्टॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदरयों** से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने बैंक विवरण को पंजीकृत/अपडेट करें।

#### ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीकाः

लिए जारी किया जा रहा है।

स्थान : कोलकाता

- शेयरधारकों के पास शनिवार, 16 सितंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे से मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे तक रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसायों पर दूर से अपना वोट डालने का अवसर होगा। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम के समय रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी।
- ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को ऊपर दिए गए तरीके से अपने ईमेल पते को सफलतापूर्वक पंजीकृत करने के बाद ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

## वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने का तरीकाः

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग की निर्देशावलियों के संबंध में एजीएम की सूचना में निर्धारित टिप्पणियों को ध्यान से पढ़े।

यह सूचना एमसीए तथा सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन के तहत कंपनी के सभी सदस्यों के सूचनार्थ तथा सुविधा के

कृते एमएसटीसी लिमिटेड दिनांक : 27,07,2023

अजय कुमार राय

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

## PRADHIN LIMITED

Corporate Identification Number: L15100TN1982PLC009418 Corporate Office: 203 S.F. Soliter FP-182, SP-182/ D.T.P.S-14, B/S. Valbhav Apartment 2, Opp. Bombay Garage, Shahibaug Ahmedabad - 380004, Gujarat, India; Tel: +91 - 9925052000; Website: www.pradhin.com; Email ID: info.pradhin@gmail.com

This Pre-Offer Advertisement and Comigendum to the Detailed Public Statement is issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited ("Manager to the Offer"), for and o behalf Mr. Nitin Vitthalrao Thorave ('Acquirer') pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers). Regulations, 2011, as amended ('SEBI (SAST) Regulations'), in respect of the Open Offer made to acquire up to 9,48,688 (Nine Lakhs Forty-Eight Thousand Six Hundred And Eighty-Eight). Equity Shares of 740,00/- (Rupees Forty Only) each of Pradhin Limited ('PRADHIN' or 'Target Company') representing 26,00% (Twenty-Six Percent) of the

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL

This Advertisement is to be read in conjunction with the a) Public Announcement dated Thursday, April 13, 2023 (Public Announcement), (b) Detailed Public Statemen dated Thursday, April 20, 2023, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Friday, April 21, 2023, in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi) (Mumbai Edition) and Madras Mani (Chennai Daily) (Chennai Edition) (Newspapers) (Detailed Public Statement), (c)

Draft Letter of Offer dated Thursday, April 27, 2023 (Draft Letter of Offer), (d) Letter of Offer dated Friday, July 27, 2023, along with the Form of Acceptance-cum Acknowledgement (Letter of Offer), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Thursday, August 03, 2023, and published in the Newspapers on Friday, August 04, 2023 (Recommendations of the Independent Directors of the Target Company) (the Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors of the Target Company are hereinafter collectively referred to as 'Offe Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirer. Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

or capitalized terms used hereinalter, please refer to the 'Definitions' set out below under the Paragraph 1 titled as 'Definitions and Abbreviations' on page 8 of this Letter of

The Offer is being made at a price of \$40.00/- (Rupees Forty Only) per Equity Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.

Recommendations of the Committee of Independent Directors

A Committee of Independent Directors of the Target Company comprising of Dhaval Manubhai Barot, Independent Director, as the Chairperson of the Independent Directors Committee, and Samirikumar Mukundhbhai Mehta, member of the Independent Directors Committee approved its recommendation on the Offer on Thursday, August 03, 2023, and published the same in the Newspapers on Thursday, August 04, 2023. The IDC Members are of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders may, therefore, independently Other details with respect to Offer This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer

The Letter of Offer has been dispatched to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on Tuesday, July 25, 2023, being the Identified Date. On Tuesday, August 01, 2023, through electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registered with the Depositories/Targe Company, and through speed post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company, or whose Ems On Thursday, August 03, 2023, through registered post to those Public Shareholders to whom the dispatch of Letter of Offer vide electronic mode had bounced-back.

Draft Letter of Offer dated Thursday, April 27, 2023, filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations, for its Observations. In pursuance of which all the observations received from SEBI vide letter bearing reference number SEBI/HO/CFD/CFD-RAC DCR1/P/OW/2023/29346/1' dated Friday, July 21, 2023, duly in terms of Regulation 16 (4) of the SEBI (SAST) Regulations upon submission of the Draft Letter of Offer are duly incorporated in the Letter of Offer. There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement and as otherwise disclosed in the Detailed Public Statement and the Letter of Offer. Please note that a copy of the Letter of Offer is also available and accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.pradbin.com, the

Registrar to the Offer at www.skylinerta.com, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and BSE Limited at www.bseindia.com, from which the Public Shareholders can download/print the same.

Instructions for Public Shareholders In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form: The Public Shareholders who are holding Equity Shares in electronic/dematerialized form and who desire t

tender their Equity Shares in this Offer shall approach their respective Selling Broker incloating to their Selling Broker the details of Equity Shares that such Public Shareholder intends to tender in this Offer. Public Shareholders should tender their Equity Shares before market hours close on the last day of the Tendering Period. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.16. Ittled as Procedure for tendering Equity Shares held in Dematerialized Form on page 33 of the Letter of Offic In case of Equity Shares are held in Physical Form: As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dem depository with effect from 1 April 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated 31 July 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of th SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and intend to participate in the Offer will be required.

to approach their respective Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out, including the (i) original share certificate(s), (ii) valid share transfer form(s), i.e. Form SH-4, duly filled and signed by the transferors (i.e., by all registered shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Target Company) and duly witnessed at the appropriate place, (ii) self-attested copy of the shareholder's PAN Card, (iv) Form of Acceptance duly completed and signed in accordance with the instructions contained therein, by sole/joint Public Shareholders whose name(s) appears on the share certificate(s) in the same order in which they hold Equity Shares, and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has secessed, etc., as applicable. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.17. littled as Procedure for tendering Equity Shares held in Physical Form on page 34 of the Letter of Offer Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer: Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do no appear in the records of Depositories on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who

have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company ma. download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company. Afternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by Stock Exchanges before the closure of the Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 8:32, titled as 'Procedure for bendering Equity Shares in case of non-receipt of Letter of Offer on page 38 of the Letter of Offer. Status of Statutory and Other Approvals

As of date, to the best of the knowledge of the Acquirer, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 7.6. titled as 'Statutory Approvals and conditions of the Offer at page 29 of Letter of Offer Procedure for Acceptance and Settlement of Offer

The Open Offer will be implemented by the Acquirer through Stock Exchange mechanism made available by BSE Limited in the form of separate window (Acquisitio Window) as provided under the SEBI (SAST) Regulations, SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCEUL/1/2015 dated 13 April 2015, as amended read along with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated 9 December 2016, as amended, and SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 issued by SEBI. As per SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, a lier

shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offers. Upon finalisation of the entitlement, only accepted quantity of shares shall be debited from the demat account of the shareholders. The lien marked against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering and ettlement of shares under the revised mechanism is specified under the Paragraph 8 titled as Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer on page 30 of th Letter of Offer Revised Schedule of Activities

Name of the Activity	Schedule of Activities (Day and Date)	Revised Schedule of Activities (Day and Date)
Issue date of the Public Announcement	Thursday, April 13, 2023	Thursday, April 13, 2023
Publication date of the Detailed Public Statement in the Newspapers	Friday, April 21, 2023	Friday, April 21, 2023
Date for filing the Draft Letter of Offer with SEBI	Thursday, April 27, 2023	Thursday, April 27, 2023
Last date for Competing Offer(s)	Tuesday, May 16, 2023	Tuesday, May 16, 2023
The last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer will be received (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager)	Monday, May 22, 2023	Friday, July 21, 2023
Identified Date	Wednesday, May 24, 2023	Tuesday, July 25, 2023
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the identified Date	Wednesday, May 31, 2023	Tuesday, August 01, 2023
Last date for publication of the recommendations of the committee of the independent directors of the Target Company to the Public Shareholders for this Offer in the Newspapers	Monday, June 05, 2023	Friday, August 04, 2023
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Tuesday, June 06, 2023	Monday, August 07, 2023
Last date of publication of opening of Offer public announcement in the Newspapers	Wednesday, June 07, 2023	Monday, August 07, 2023
Date of commencement of Tendering Period	Wednesday, June 21, 2023	Tuesday, August 08, 2023
Date of closing of Tendering Period	Wednesday, July 05, 2023	Wednesday, August 23, 2023
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Wednesday, July 19, 2023	Wednesday, September 06, 2023

#There has been no competing offer as of the date of this Letter of Offer. Videntified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the Letter of Offer would be sent. All the public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the Acquirer and the parties to the Share Purchase Agreement) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.

Documents for Inspection The copies of the following documents will be available for inspection at the registered office of the Manager to the Offer, Swaraj Shares and Securities Private Limited, located at Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Incian Standard Time) during the Tendering Period commencing from Tuesday, August 08, 2023 to Wednesday, August 23, 2023 Further, in light of SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2020/139 dated July 27, 2020, read with SEBI Circular SEBI/CIR/CFD/DCR1/CIR/P/2020/83 dated May 14 2020, copies of the following documents will be available for inspection to the Public Shareholders electronically during the Tendering Period. The Public Shareholders interested to inspect any of the following documents can send an email from their registered email-ids (including shareholding details and authority letter in the ever

the Public Shareholder is a corporate body) with a subject line ["Documents for Inspection PRADHIN Open Offer"], to the Manager to the Open Offer a compliance@swarajshares.com; and upon receipt and processing of the received request, access can be provided to the respective Public Shareholders for electronic inspection of documents. For further information, kindly refer to the Paragraph 13 titled as 'Documents for inspection' on page 52 of the Letter of Offer. The Adquirer accepts full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations. This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be accessible on the websites of SEBI at <a href="https://www.sebi.gov.in">www.sebi.gov.in</a>, the Target Company at Offer at <a href="https://www.swarajshares.com">www.swarajshares.com</a>, and BSE Limited at <a href="https://www.swarajshares.com">www.swarajshares.com</a>, and an an article of the state of th

#### issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer **SWARAJ**

Swaraj Shares and Securities Private Limited Corporate Identification Number: U51101WB2000PTC092621

Principal Place of Business: Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbal- 400093, Maharashtra, India. Contact Person: Pankita Patel/ Tanmoy Banerjee

Contact Number: +91-22-69649999 Email Address: compliance@swaraishares.com

SEBI Registration No.: INM00012980 Validity: Permanent

Date: Friday, August 04, 2023

www.readwhere.com

Place: Mumbai

Mr. Nitin Vitthairao Thorave

## PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that Unit No. B-170/GF, FF, and SF, with a total plot area of 475.46 Sq. Yds. (397.55 Sq. Mtrs), in Florence Residency, Sushant Lok III, is the sole property of M/s Ansal Buildwell Ltd. Mrs. Ratan Mala, Mr. Nikhil Singhal & Mrs. Deepali Singhal have no claim, right, title, or interest in the said property.

Anyone dealing with them will do so at their own risk

## M/s Ansal Buildwell Ltd.

Office: 118, Prakashdeep Building, Upper First Floor, 7, Tolstoy Marg, New Delhi 110001



एसकेएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 368/369, तीसरी मंजिल, बसंत बिल्डिंग, चौधरी मार्केट, सुल्तानपुर, नई दिल्ली -110030 CIN: U74999DL1992PLC050472, फोन 0124-4272107, वेबसाइट: www.sknindustries.in, ईमेल आईडी: info@sknindustries.in

## सूचना

खद द्वारा सूचना दि जाती है कि कंपनी की **31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 13 सितंबर, 2023 को सुबह 11.30 बजे (आईएसटी)** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 2020 का 14 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 2020 का 17 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 2020 का 20 दिनांक दिनांक 05 मई 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 2022 का 10 दिनांक 28 दिसंबर 2022 द्वारा जारी रूपरेखा के अनुसार और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 5 जनवरी, 2023 (सामुहिक रूप से इसे परिपत्र कहा जाता है) के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए **वीडियो** कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय विवरण (बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिंटर की रिपोर्ट या उसके साथ संलग्न होने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित) (सामृहिक रूप से "वार्षिक रिपोर्ट" के रूप में संदर्भित), केवल ईमेल के माध्यम से सभी सदस्यों को (21 जुलाई 2023 की बेनपोज़ रिपोर्ट के अनुसार) उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे और इसकी कोई भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी। हालाँकि, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति माँगने पर भेजी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.sknindustries.in और आस्टीए वेबसाइट www.skylinerta.com पर उपलब्ध होगी। कपया थ्यान दें कि कंपनी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 31वीं एजीएम आयोजित कर रही है और इस एजीएम वे लिए सदस्यों, निदेशकों, लेखा परीक्षकों और अन्य पात्र व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी एमसीए सर्कुलर के अनुसार, इस 31वीं एजीएम में भाग लेने और सदस्यों को वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 31वीं एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के हकदार हैं। सदस्य, निदेशक, लेखा परीक्षक और अन्य पात्र व्यक्ति जिन्हें यह नोटिस भेजा जा रहा है, वे निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। इसके अलावा सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और

भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और भागीदारी की जानकारी एजीएम की सुचना में दी गई है। हम एसकेएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने अभी तक अपना सही ईमेल पता पैन नंबर और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किया है। कृपया नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके और अपने पैन कार्ड/आधार कार्ड/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति के साथ अपना फोलियो नंबर/डीपी/क्लाइंट आईडी/प्रमाणपत्र नंबर उद्धत करके इसे अपडेट करें। सदस्य के ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

डीमैट होल्डिंग: डीमैट फॉर्म में कंपनी के डक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य, कुपया DPID-CLID (16 अंक DPID + या 16 अंक CLID लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर, समेकित खातो प्रदान करें। अपने पैन कार्ड/आधार कार्ड/वैथ पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के साथ स्टेटमेंट कोंपी info@sknindustries.in पर या admin@skylinerta.com ईमेल करें।

भौतिक होल्डिंग: कंपनी के इक्विटी शेयरों को भौतिक रूप में रखने वाले सदस्य, कृपया फोलियो नंबर, शेयरथारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति ईमेल द्वारा info@sknindustries.in या admin@skylinerta.com पर प्रदान करें। कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्ताव पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सविधा भी प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की एक विस्तुत प्रक्रिया

कृते एसकेएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली सतीश चोपडा प्रबंध निदेशक दिनांक: 07-08-2023 प्रपत्र–जी(पुनः प्रकाशित)

> डी.के. रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लिए रुचि की अभिव्यक्ति हेत् आमंत्रण

(भारतीय दिवालियापन और ऋणशोधनाक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए(1) के तहत

	प्रार	संगिक विवरण
1.	पैन/सीआईएन के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नामः	सीआईएनः U70102MH2012PTC234931
2.	पंजीकृत कार्यालय का पताः	4—ए, चौथी मंजिल धीरज अरमा, अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा पूर्व, बांद्रा कोर्ट के पास, मुंबई, महाराष्ट्र—400051
3.	वेबसाइट का यूआरएलः	कंपनी की अपनी वेबसाइट नहीं है इसलिए इस उद्देश्य के लिए आईपीई की वेबसाइट का उपयोग किया जा रहा है। https://insolvencyandbankruptcy.in/cirp/ d-k-realty-india-pvt-ltd/
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं:	कंपनी रियल एस्टेट कारोबार में कार्य कर रही है और यह परियोजना कुर्ला (पश्चिम), मुंबई में स्थित है।
5.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं की स्थापित क्षमता ः	परियोजना में फ्लैट/इकाइया आशिक रूप से निर्मित हैं। रेरा को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तावित फ्लैट 1582 इकाइयां हैं।
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों / सेवाओं की मात्रा और मूल्य :	कपनी रियल एस्टेट के व्यवसाय में लगी हुई है और वर्तमान में इसकी केवल एक परियोजना है जो आंशिक रूप से निर्मित है और ऐसा लगता है कि निर्माण लगभग 2 साल पहले बंद हो गया है।
7.	कर्मचारियों / कामगारों की संख्या :	सीआईआरपी प्रारंभ होने की तारीख तक वहां किसी भी कर्मचारी / कामगार की जानकारी नहीं है।
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियों सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं:	अधोहरताक्षरी के पास उपलब्ध अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र वित्त वर्ष 2016—17 और 2017—18 की है और अन्य प्रासंगिक विवरण यहां उपलब्ध हैं — https://insolvencyandbank- ruptcy.in/cirp/d-k-realty-india-pvt-ltd/ या dkrealtyindia-ibc@gmail.com पर ईमेल करें।
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है:	https://insolvencyandbankruptcy.in/cirp/ d-k-real- ty-india-pvt-ltd/ या आप dkrealtyindia.ibc@gmail.com पर ईमेल करके जानकारी मांग सकते हैं
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथिः	22/08/2023
	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथिः	
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथिः	06/09/2023
13.	ईओआई जमा करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी :	dkrealtyindia.ibc@gmail.com
	कः 07.08.2023 ा : दिल्ली	हस्ता / — एएए संकल्प पेशेवर एलएलपी आईबीबीआई / आईपीई—0002 / आईपीए—1 / 2022—23 / 50001

संकल्प पेशेवर सीए अनिल गोयल, साझेदार, एएए संकल्प पेशेवर एलएलपी डी के रियल्टी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अधिकृत साझेदार (एएफए वैध : 22-11-2023 तक)

# यूको बैंक 😭 UCO BANK

अंचल कार्यालयः बी-1/122, प्रथम तल, विनीत खंड, गोमती नगर लखनऊ-226010 ई-मेल: zolucknow.sec@ucobank.co.in

## सचना

युको बैंक, अंचल कार्यालय लखनऊ, सहित सभी शाखाओं (संख्या 70) के लिए 'इलेक्ट्रिक सह ऊर्जा लेखा परीक्षा' एवं 'अग्नि लेखा परीक्षा' हेत् निविदा आमंत्रित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com देखें। निविदा दिनांक 28.08.2023 को शाम 5.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व उपरोक्त पते पर भेजी जा सकती है। अचल प्रबन्धक

## यूको बैंक 🏟 UCO BANK

अंचल कार्यालयः बी-1/122, प्रथम तल, विनीत खंड, गोमती नगर लखनऊ-226010 ई-मेल: zolucknow.sec@ucobank.co.in

## सुचना

शाखाओं हेतु 'हैवी ड्यूटी नोट सार्टिंग मशीनों' (4+1 पॉकेट) की खरीद हेतू निविदा आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com देखें। निविदा दिनांक 28.08.2023 को शाम 5.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व उपरोक्त पते पर भेजी जा सकती है। अचल प्रबन्धक

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के अनुपालन में] ्र एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप-ध 4(ii) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 व धारा 8 (5) के अंतर्गत उसे जारी की गई लाइसैन्स के निरसन के लिये मै. युगऋ ग्लोबल हेल्थकेयर फाउण्डेशन, CIN: U74999DL2016NPL299040 हार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के पास एक आवेदन दिया है। लाइसैन्स के निरसन के बाद कम्पनी को उसके नाम में फाउण्डेशन के बाद प्राईवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना होग अर्थात उसका नाम युगऋषि ग्लोबल हेल्थकेयर फाउण्डेशन प्राईवेट लिमिटेड हो जाएगा कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है:

आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होमियोपैथी, नैच्युरोपैथी, जैव-चिकित्सा, एलोपैथिव अथवा, किसी अन्य हेल्थकेयर तथा औषधीय विधाओं को प्रोत्साहन कर आम लोगों क चिकित्सा राहत प्रदान कर तथा इस सिलसिले में ज्ञान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान कर तथा "यगऋषि" के ब्रैण्ड नाम में अथवा किसी अन्य ब्रैण्ड नाम में कम्पनी के क्रियाकला के लिये शोध एवं विकास करना।

- कम्पनी द्वारा उक्त उद्देश्यों को स्वयं तथा धर्मार्थ उद्येश्यों वाले अन्य सन्ताओं अथवा टस्ट अथवा संस्थानों को चंदा, अंशदान, उपहार, अनुदान देकर पूरा एवं कार्यान्विक
- कम्पनी के किसी भी उद्देश्यों को संबंधित प्राधिकरणों से पर्व अनमति प्राप्त किये बिन कार्यान्वित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त उद्देश्यों को आगे बढाने के लिये जो भी जरूरी हो, अन्य इस प्रकार का विधि
- सम्मत कार्य करना। प्रस्तावित कम्पनी के प्रारूप मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स की प्रति शॉप नं. 5, आनंद धार आश्रम, बक्करवाला मार्ग, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110041 में देखी
- ्र एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगम अथवा कॉर्पोरे निकाय को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी 2 विंग 2 रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ, कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को संबोधित एक प द्वारा इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर नई दिल्ली में क्षेत्रीय निदेशक को ऐसी सुचना दें तथा उसकी एक प्रति शॉप नं. 5, आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला मार्ग

नांगलोई, नजफगढ रोड, नई दिल्ली-110041 में आवेदक को अग्रसारित करें।

आवेदकों का ना कृत्ते, युगऋषि ग्लोबल हेल्थकेयर फाउण्डेश्न अर्चिका सुधांश

DIN: 00062601

'कार्ग ए' सार्वजनिक उदघोषणा (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया)

1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	मैसर्स वॅटोडेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के गठन की तिथि	03.03.2020
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति गठित / पंजीकृत है	कंपनियों रजिरट्रार, एनसीटी ऑफ दिल्ली और हरियाणा नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2020FTC362561
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	5वां पलोर, कमर्शियल टॉकर, नोबोटेल पुलमैन हॉरिपटेलिटी डायल नई दिल्ली—110037
6.	कॉर्मोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ तिथि	05.08.2023
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन नम्बर एवं पंजीकरण संख्या	नाम : श्री अमित अग्रवाल पता : एच—63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली—110092 ईमेल : amitagcs@gmail.com फोन नं : 011—43019279 पंजीकरन संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00185/2017-18/10456
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	04.09.2023

परिसंगापन प्रारंभ किया है। मैसर्स वेंटोडेक्स प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकडोल्डरों को एतदद्वारा मद 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 04.09.2023 को यो उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा। अन्य सभी स्टेकहोल्डर व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दावों के प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावों के झुठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

तिथि : 07.08.2023 स्थान : दिल्ली

## "IMPORTANT"

स्थान : नई दिल्ली

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

## COURT NOTICE In The Court Of Sh Gagandeep

अमित अग्रवाल

Singh Kainth Civil Judge Junior Division-6, Ferozepur State Bank Of India Neera Devi

CNR NO: PBFZ02-001574-2021 Next Date: 14-09-2023 Pubication Issued To: Neera Devi W/o

Shivom Kumar S/o Rajveer Singh 2. Santosh Devi W/o Rajveer Singh Both legal Representatives Of Shivom Kumar Principal Borrower Residents Of Village Bhootpura, Post Office Ladanpur, Tehsil Dhanoura, PS dhanoura district amroha In above titled case the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is

ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 14-09-2023 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_n otice&district=Ferozepur Civil Judge Junior Division-6 Ferozepur

## प्ररूप संख्या युआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सचना का विज्ञापन

## (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में }

- 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में **रजिस्ट्रार, केंद्रीय** पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8 सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुडगांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदने पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की "अनएजिंग यूनिवर्स " एक साझेदारी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेवरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप है पंजीकृत किया जाए।
- कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं:
- प्रशिक्षण, वर्च्अल स्ट्रांडियो के माध्यम से प्रशिक्षण वर्च्अल ऐप-आधारित मॉडपूल के माध्यम से प्रशिक्षण ट्रेडिंग सेवाओं पर एग्रीगेटर मॉडल, भारत या भारत के बाहर स्वास्थ्य और कल्याण शिक्षा / परामर्श और स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों और सेवाओं के माध्यम कल्याण उद्योग में सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय के ब समृह प्रशिक्षण, अनुकृतित प्रशिक्षण, एक साथ लाइव
- स्ट्रीमिंग, और अनएजिंग टिप्स-वीडियो के तहत उत्पाद और सेवाओं के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए. ऐप-आधारित मॉडपूल इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल एप्लिकेशन आधारित और वेब-आधारित साफुटवेयर के साथ व्यापार को बढावा देना। प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद
- टावर इटर्निया महागुन मेजेरिया, सैक्टर 78 नोएडा, **गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301** स्थित कार्यालय में किया जा सकता है। सचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस

सचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रिनस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8 सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा) पिन कोड- 122050, पर भेज दे तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकत कार्यालय में भी भेज दें। अनएजिंग युनिवर्स के लिए

तिथि: 07.08.2023 लीना पिल्लई (साझेदार) स्थानः नोएडा

नियम 30 के अनुपालन में] केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावाली, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

रीगल एम्पोरिया इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U70200DL2011PTC217218) जिसका पंजीकृत कार्यालय शॉप नं.-07, सीएससी आरबीआई कॉलोनी (जीएफ) हौज खास दिल्ली 110016, भारत में है, के

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से "उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 1 अगस्त, 2023 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल ( www.mca.gov.in ) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके पंजीकृत कार्यालय शॉप नं.-07. सीएससी आरबीआई कॉलोनी (जीएफ) हौज खास दिल्ली 110016, भारत में है, के मामले में आवेदक कंपनी तथा श्री विजय कुमार शर्मा तथा सुश्री अर्पणा नस्सा, कार्यरत कम्पनी सचिव, वीएस एसोसिएट्स, ए-52, निम्न भूतल, निर्माण विहार, दिल्ली-110092 को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली के पास जमा क या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

रीगल एम्पोरिया इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड राहुल रस्तोगी

तिथि: 5 अगस्त, 2023 ( निदेशक स्थानः दिल्ली DIN: 06916652

Registered Office: A47 Lower Ground Floor, Hauz Khas, Off Amar Bhawan, New Delhi -110016 (P) 0124-4598749, (W) www.affle.com, Email: compliance@affle.com CIN: L65990DL1994PLC408172

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL **RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023** 

Particulars	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter ended June 30, 2022 (Unaudited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)
Total income for the periods / year	4,164.14	3,733.41	3,549.69	14,882.80
Profit before tax for the periods / year	700.69	698.57	639.62	2,815.51
Profit for the periods / year	661.72	623.88	549.88	2,454.66
Total comprehensive income for the periods / year	627.20	616.40	773.05	2,893.16
Paid-up equity share capital (face value INR 2/- per equity share)	266.35	266.35	266.35	266.35
Other equity for the year	**		5	14,384.16
Earnings per equity share (face value INR 2/- per equity share)				
Basic:	4.97	4.68	4.13	18.43
Diluted:	4.97	4.68	4.13	18.43

 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 05, 2023 and subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.

Particulars	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter ended June 30, 2022 (Unaudited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)
Total income for the periods / year	1,425.16	1,435.64	1,087.58	5,173.66
Profit for the periods / year	155.82	203.06	102.85	668.78
Total comprehensive income for the periods / year	155.77	203.20	102.38	668.13

3. The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as

For the Indian Intelligent.

# AFFLE (INDIA) LIMITED

Particulars	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter ended June 30, 2022 (Unaudited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)
Total income for the periods / year	4,164.14	3,733.41	3,549.69	14,882.80
Profit before tax for the periods / year	700.69	698.57	639.62	2,815.51
Profit for the periods / year	661.72	623.88	549.88	2,454.66
Total comprehensive income for the periods / year	627.20	616.40	773.05	2,893.16
Paid-up equity share capital (face value INR 2/- per equity share)	266.35	266.35	266.35	266.35
Other equity for the year			-	14,384.16
Earnings per equity share (face value INR 2/- per equity share)				
Basic:	4.97	4.68	4.13	18.43
Diluted:	4.97	4.68	4.13	18.43

Particulars	Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter ended June 30, 2022 (Unaudited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)
Total income for the periods / year	1,425.16	1,435.64	1,087.58	5,173.66
Profit for the periods / year	155.82	203.06	102.85	668.78
Total comprehensive income for the periods / year	155.77	203.20	102.38	668.13

The full format of the quarterly financial results are available to the investors on the websites of stock exchange, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company i.e. www.affle.com.

Anuj Khanna Sohum

The Indian Express. By Order of the Board For Affle (India) Limited

Managing Director & Chief Executive Officer

Date: August 5, 2023

सूचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा

वैयक्तिंत प्रशिक्षण, आभासी वास्तविकता के माध्यम से

हापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण 1814 18वीं मंजिल.

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली. 2014 के

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर

indianexpress.com

I arrive at a conclusion not an assumption.

> Inform your opinion with detailed analysis.

—JOURNALISM OF COURAGE